

ganga-e-samar

Samarjeet Randhwa

Maa Ganga




Maa Ganga

The national river of India — the Ganga has spiritual, economic, environmental and cultural importance in the country. It originates in the Gangotri glacier in the Himalayas and flows more than 2500 km into the Bay of Bengal. In terms of water flow, it is the third largest river in the world. Varanasi, often regarded as the spiritual capital of India, lies on the banks of the Ganga. Rishikesh, Haridwar, Kanpur, Allahabad, Mirzapur, Patna, Bhagalpur are some of the major towns and cities along this mighty river.

In West Bengal, the river divides into the Hooghly (flowing through Kolkata) and the Padma (flowing into Bangladesh) and ultimately flows into the Bay of Bengal. The fertile delta of Sunderbans formed when Ganga and Brahmaputra enter the Bay of Bengal is the largest delta in the world. The endangered Ganga river dolphin, India's national aquatic animal, is one of only five species of freshwater dolphins in the world. Sadly, its numbers have been reducing due to unchecked pollution of the river. The Ministry of Environment and Forests, declared them to be 'non-human persons' and so cannot be captured for entertainment purposes.

India's largest river, Ganga, has been India's lifeline for ages, as it courses through the Western Himalayas in Uttarakhand towards the east and into Bay of Bengal. A sacred river, it not just provides for the millions of people who live along its banks, but also is home to 140 species of fish, the endangered Ganges River Dolphin, and 90 species of amphibians. However, in recent years, its over-usage has led to its pollution, which poses a serious threat to the aquatic lives and human population dependent on it. With a sustainable view and an increased awareness, many action plans to revive Ganga's purity and cleanliness had been initiated.



Samarjahan Foundation

Samarjahan Foundation

Samarjahan Foundation for promotion of Indian Music is a cultural and educational initiative intended to promote and disseminate the classical and popular traditions of Indian music, including those rooted in the Sufi cultures.

The Foundation presents interdisciplinary programs that bridge the gap between talent and music industry, including:

- Public events such as concerts, lectures, and exhibitions.
- Scholarly activities including publications and conferences, as well as the development of a comprehensive archive of scores, books, and recordings.
- Professional opportunities that foster exchange among talented musicians, scholars, performers, composers, musicologists, and music educators.
- Creating an awareness of Indian performing arts.
- Encouraging & hosting talented local artist programs.

Our motto is “sharing the joy of music” which we promote through performances, workshops, collaborations, research and exciting projects. We are an inclusive organisation and encourage participation with people from different cultural perspectives including awareness about social problems.

Samarjeet Randhava



Samarjeet Randhava

Sufi as we all know is one of the most ancient and purest forms of music, not just in India but all across the globe. Prayer, Prarthana or Ibadat whichever is the term applied, the purity and sanctity of this extremely serene genre of music remains the same.

Music is a medium which connects the “Atma” or the creation with the “Parmatma” or the creator and Sufi is indispensably linked with spirituality. There are very few dedicated souls not just in India but globally who have transcended all the barriers of geography, caste, creed and religion to dedicate their entire life for the upliftment, propagation, nurturing and survival of this ancient form of music.

One such name is Ms. Samarjeet Randhava. Despite being a trained classical vocalist she chooses Sufi and Devotional as her forte.

She has worked relentlessly in order to make preaching's of famous saints both to the class and the masses. She has been to different parts of the country to spread interest and awareness about the forgotten gems from the ocean of music.

Samarjeet thoroughly enjoys presenting the verses of saints in a very lucid way. She has the charm of holding audience's attention for the whole night during her live performances.

Her contribution to the society through her singing and dedication towards making young India remain connected to the roots has been extremely commendable over the past few years.

She is also the principle trustee of Samarjahan Foundation.



ganga-e-samar

Ganga-e-Samar

India is one of the most water-challenged countries in the world. Its rivers are depleted by over-extraction, deforestation, pollution, and climate change. Major rivers are shrinking and rivers that were once perennial now only flow seasonally as India becomes more desert-like. The volume in rivers is slowly decreasing, from about 182,824 cubic feet in 1951 to only 54,561 in 2011. To make matters worse, only a small percentage of this water is usable for human purposes—a mere 33,125 cubic feet. That number is expected to decrease to 28,746 cubic feet by 2025. This, in turn, is killing species and destroying natural resources.

The Ganges, historically relied on for agriculture, and the Indus Rivers are often listed as the most endangered in the world. Both are threatened by rampant pollutants and plans to build dams. Agriculture is India's economic mainstay, and water is crucial to its people. But with the way things are, the country could face severe water shortages this century. This could mean doom for many farmers and long-term damage for the ecosystem.

Samarjahan Foundation is working towards contributing in mission of cleaning Ganga by awaking the public through a music video. The music video called Ganga-e-samar – will depict the innumerable ways in which people are dependent on the river and also the different ways in which they are polluting river. It is a request to Maa Ganga to keep flowing even though the masses are misutilizing the river, even though it has been prohibited in Vedas and Puranas. The lyrics of the song are in Hindi and Sanskrit.

With an eye on raising awareness about the cleanliness of Ganga, this song makes a gibe on the common man who is not aware how to treat Maa Ganga. We, as beneficiary of Maa Ganga, are punishing Maa Ganga by doing all the acts that are prohibited in Ganga and are unable to understand the pain that Maa Ganga has to go through because of our misdeeds.

Ganga river's water quality had been acclaimed in ancient times. Its life-giving and healing qualities are evident from the following description in Rajanirghanta (~300 AD) meaning "The qualities of Ganga water are:

ganga-e-samar

a tribute to Maa Ganga



Ganga-e-Samar

Coolness, sweetness, transparency, high tonic property, wholesomeness, potability, ability to remove evils, ability to resuscitate from swoon caused by dehydration, digestive property and ability to retain wisdom":

अस्या जलस्य गुणाः शीतत्वम्, स्वादुत्वम्,
स्वच्छत्वम्, अत्यन्तरूच्यत्वम्, पथ्यत्वम्,
पावनत्वम्, पापहारित्वम्, तृष्णामोहध्वंस्त्वम्,
दीपनत्वम्, प्रज्ञाधारित्वंच इति राजनिर्घण्टः

The properties of Ganga river's waters quoted above are remarkable, to say the least. However, in present times the river water quality is abysmal, posing a grave environmental threat to the region. The change in water quality may have been occurring over many centuries. Ancient scriptures had cautioned against misusing the Ganga river. For instance, the following edict in Sanskrit prohibited thirteen types of human actions, viz.: defecation; ablutions; discharge of wastewater; throwing of used floral offerings; rubbing of filth; body shampooing; frolicking; acceptance of donations; obscenity; offering of inappropriate praises or even hymns in a incorrect way; discharging of garments; bathing and, in particular, swimming across.

गंगा पुण्यजलां प्राप्य त्रयोदश विवर्जयेत् ।
शौचमाचमनं सेकं निर्माल्यं मलघर्षणम् ।
गात्रसंवाहनं क्रीडां प्रतिग्रहमथोरतिम् ।
अन्यतीर्थरतिचैवः अन्यतीर्थं प्रशंसनम् ।
वस्त्रत्यागमथाघातं सन्तारच विशेषतः ॥

ब्रह्माण्डपुराण (800 ई0)

Such strictures got diluted over time. But, the environmental significance of these precautions is obvious to the modern mind. And, what is equally significant, they convey a sense of deep respect for National River Ganga. Samarjahan foundation have taken up the task to take these strictures to the people of India through the most effective medium - music and video song.

The Tribute



The Tribute

गीतकार – समरजीत रंधावा
स्वर – समरजीत रंधावा
संगीतकार – चौतन्य भट्ट
रूप रेखाकार – समरजीत रंधावा

माँ गंगा बहती जाये, धौला सा रूप सजाये
हम सारे मिलकर तुझे सताए,
न तेरी पीड़ा समझी, हर पल करते नासमझी
करते तुझे प्रदूषित, कहते गंगा माँ,
अविरल तू बहती रहती, सब दुःख तकलीफें सहती,
ठाना है अब देंगे हम तुझको पुनः सुधार
गंगा माँ प्यारी माँ
बहती जाना तू सदा, तू सदा, तू सदा

कैसी किरपा बरपाई, महादेव ने भेजा तुझको धरती पर
हंसती तू खिलखिलाती, गंगोत्री से पहुंची फिर गंगा सागर
न समझी हमने की है, न समझी हम करते हैं
कहते हैं माँ तुझको, फिर क्यों तेरा दोहन करते हैं
अविरल तू बहती रहती, सब दुःख तकलीफें सहती
तुझको बचाना रक्षा करना अब है काम
गंगा माँ, प्यारी माँ
बहती जाना तू सदा, तू सदा, तू सदा

गंगा पुण्यजलां प्राप्य त्रियोदश विवर्जयेत्। शौचमाचमनं सेकं निर्माल्यं मलघर्षणम्।
गात्रसंवाहनं क्रीडां प्रतिग्रहमथोरतिम्। अन्यतीर्थरतिचैवः अन्यतीर्थं प्रशंसनम्।
वस्त्रत्यागमथाघातं सन्तारच विशेषतः॥

तुझको जो करता सच्चा प्रेम महा मानव है
तुझको ही करे विसर्जित, कमल पुष्प की कलियों को
उजला स्वरूप तेरा, जन जन के मन को भाता है
तू है संस्कृति देश की तुझसे गहरा नाता है
नदियां तो सभी स्वरूप हैं, गंगा तू पूर्ण रूप है
तुझको बचाना रक्षा करना, अब है काम
गंगा माँ, प्यारी माँ
बहती जाना तू सदा, तू सदा, तू सदा

महामना मालवीय जी हो, चाहे हो गंगा धर बाल तिलक
आदरणीय मोदी जी ने भी, लिया है अद्भुत सा संकल्प
करना है पूर्ण स्वच्छ, दोहन पर लगे विराम
गंगा माँ, प्यारी माँ
बहती जाना तू सदा, तू सदा, तू सदा

Making of the Video



Samarjahan foundation is proud to share the plan of making of upcoming Ganga-e-Samar video song for awakening the masses for keeping the Maa Ganga clean. A great music video doesn't just happen by accident. The penultimate step in making music video project a reality, is shooting it. Samarjahan Foundation will shoot the Ganga-e-Samar music video in five cities along the bank of Ganga to start the awareness campaign right from the beginning.

The foundation of the upcoming concerts will be laid down during the shooting of the music video. The idea is to show the change in culture as Maa Ganga flows down from Haridwar to West Bengal to Bay of Bengal.

The entire team consists of -

- Band members
- Sound engineers
- Tour Manager
- Camera Persons
- Lighting Person
- Director of Photography

Not only the band playing will be shoot at every location but also the culture of every city will be shot to make it one of the best tribute to Maa Ganga. Starting from Rishikesh to Patna, The music video will try to cover as many cities as possible along the bank of Maa Ganga.

6 Cities Concert

Samarjahan Foundation will launch the Video song at Launch Ceremony and then take it to masses for awakening the masses for keeping the Maa Ganga clean through Concert Tour in five cities along River Ganges. It will be one of the biggest awareness campaign for keeping the Maa Ganga clean. Launch ceremony may take place at Lucknow or New Delhi and Concert destination include Haridwar, Kanpur, Varanasi, Allahabad and Patna will witness one of the biggest awareness campaign for the cause.

The awareness campaign will reach to lakhs of people in India through launch

ceremony, five city concert and social media to empower people, especially the youth. The campaign promotes opportunities for action and acknowledges those that contribute to the spirit of Clean Ganga. Ganga-e-Samar promotes a prosperous and beautiful environment created and nurtured by a supportive community. Ganga-e-Samar will light a spark within you as the most acclaimed Sufi, Devotional and Qwaalli performer Samarjeet Randhava, will take the stage and mesmerize the audience. Through the Ganga-e-Samar concert various groups and organisation will come together and work in synergy to become an responsible society towards Maa Ganga.

ganga-e-samar

a tribute to Maa Ganga



CleanMaaGanga Quest



The Ganga-e-Samar, during its concert tour will promote youth talent, stimulate their creativity, show school spirit and identify and acknowledge CleanMaaGanga Ambassador. CleanMaaGanga will represents a banner and a creator of opportunity (space) for students, people and organisations to be in action and to be acknowledged for their achievements. So while CleanMaaGanga creates and supports champions and an opportunity to practice leadership, the Ambassador role can simply to be the wind beneath their wings.

The aim of CleanMaaGanga ambassadors is to encourage youth to aspire, to dream and to exercise their right to express themselves through performing and creative arts. It also carries the purpose to give young people the platform to realise their potential and to boost their confidence for better leadership qualities.

The concert at different cities will be a fantastic opportunity for youth to show their unique talent and skills along with well known artists.

ganga-e-samar

a tribute to Maa Ganga

Sponsorship Package

Your sponsorship will make your brand and product highly visible to lakhs of people that will be attracted to this video song and concerts. As a sponsor, your involvement allows you the opportunity to meet local residents and create loyal groups of consumers who may or may not be familiar with your brand.

Some Benefits of Sponsoring Sounds of Light:

- Recognition of your corporate goodwill through your valuable support for this pious cause.
- Raise your corporate profile through concert flyers, posters and marketing material.
- Showcase your products and services to your chosen target markets.
- Maximise exposure of your company name and logo through the event.





*Limited
to
2 only*

Rs. 20 Lakh

Logo Inclusion:

- ◆ Sponsor logo to be included in the Video Song as Platinum Sponsor and 15 second Company or product shoot will be included in the video story line.
- ◆ Sponsor website link to be given on the Youtube channel.
- ◆ Your logo will appear in a prominent position on Samarjahan Foundation Website and Samarjeet Randhava's Website. Samarjeet Foundation, Samarjeet Randhava's and other associated companies Social Media pages which includes Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest.
- ◆ Sponsor logo will be printed on the uniform of our team of volunteers in various cities.

Advertisement:

- ◆ Sponsor will be mentioned on local radio station ads and in print and electronics media as a Platinum sponsor.
- ◆ Sponsor will be mentioned as a Platinum sponsor and logo will be included in email campaigns to over 20 lakh email database with a link to your website.

- ◆ Targeted promotion as Platinum Sponsor to over 10 lakh students in 1000 schools and their families in across India through the CleanMaaGanga quest.

Signage Marketing:

- ◆ Your logo will appear on Ganga-e-Samar billboards and banners.
- ◆ Your ad appearing on a roll up banners at the entry/ exit at each event in 6 venues.
- ◆ Your advertisement will appear on Ganga-e-Samar web media partner programs.

Print Marketing:

- ◆ Your logo will be printed on 50,000 flyers.
- ◆ An A4 page ad on 3,000 souvenir booklets given out at the event.
- ◆ Logo advertisement on 5000 posters.

Additional Inclusions:

- ◆ Acknowledgments from the stage during the event.
- ◆ 1 minute video promo during each concert.
- ◆ An Autographed framed Ganga-e-Samar memorabilia t-shirt signed by artists.
- ◆ A table to promote your business/company during the concerts.
- ◆ To distribute the literature to the audience
- ◆ 6 VIP seats for dinner with performers.
- ◆ 10 VIP platinum Ganga-e-Samar passes
- ◆ 10 autographed artists CD's.

Sponsorship Package





*Limited
to
4 only*

Rs. 10 Lakh

Logo Inclusion:

- ◆ Sponsor logo to be included in the Video Song as Gold Sponsor and 5 second Company or product shoot will be included in the video story line.
- ◆ Sponsor website link to be given on the Youtube channel.
- ◆ Your logo will appear in a prominent position on Samarjahan Foundation Website and Samarjeet Randhava's Website. Samarjeet Foundation, Samarjeet Randhava's and other associated companies Social Media pages which includes Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest.

Advertisement:

- ◆ Sponsor will be mentioned in print and electronics media as a Gold sponsor.
- ◆ Sponsor will be mentioned as a Gold sponsor and logo will be included in email campaigns to over 20 lakh email database with a link to your website.
- ◆ Targeted promotion as Gold Sponsor to

over 10 lakh students in 1000 schools and their families in across India through the CleanMaaGanga quest.

Signage Marketing:

- ◆ Your logo will appear on Ganga-e-Samar billboards and banners in respective ratio.
- ◆ Your ad appearing on a roll up banners at the entry/ exit at each event in 6 venues.

Print Marketing:

- ◆ Your logo will be printed on 50,000 flyers in respective ratio.
- ◆ Half A4 page ad on 3,000 souvenir booklets given out at the event.
- ◆ Logo advertisement on 5000 posters in respective ratio.

Additional Inclusions:

- ◆ Acknowledgments from the stage during the event.
- ◆ 1 minute video promo during each concert.
- ◆ A table to promote your business/company during the concerts.
- ◆ To distribute the literature to the audience
- ◆ 4 VIP seats for dinner with performers.
- ◆ 6 VIP platinum Ganga-e-Samar passes
- ◆ 10 autographed artists CD's.

Sponsorship Package





Rs. 5 Lakh

Logo Inclusion:

- ◆ Your logo will appear in a prominent position on Samarjahan Foundation Website and Samarjeet Randhava's Website. Samarjeet Foundation, Samarjeet Randhava's and other associated companies Social Media pages which includes Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest.

Advertisement:

- ◆ Sponsor will be mentioned as a Silver sponsor and logo will be included in email campaigns to over 20 lakh email database with a link to your website.
- ◆ Targeted promotion as Silver Sponsor to over 10 lakh students in 1000 schools and their families in across India through the CleanMaaGanga quest.

Signage Marketing:

- ◆ Your logo will appear on Ganga-e-Samar billboards and banners in respective ratio.
- ◆ Your ad appearing on a roll up banners at the entry/ exit at each event in 6 venues.

Print Marketing:

- ◆ Your logo will be printed on 50,000 flyers in respective ratio.
- ◆ Quarter A4 page ad on 3,000 souvenir booklets given out at the event.
- ◆ Logo advertisement on 5000 posters in respective ratio.

Additional Inclusions:

- ◆ Acknowledgments from the stage during the event.
- ◆ 1 minute video promo during each concert.
- ◆ A table to promote your business/company during the concerts.
- ◆ To distribute the literature to the audience
- ◆ 2 VIP seats for dinner with performers.
- ◆ 3 VIP platinum Ganga-e-Samar passes
- ◆ 5 autographed artists CD's.

Sponsorship Package





Rs. 3 Lakh

Logo Inclusion:

- ◆ Your logo will appear in a prominent position on Samarjahan Foundation Website and Samarjeet Randhava's Website. Samarjeet Foundation, Samarjeet Randhava's and other associated companies Social Media pages which includes Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest.

Advertisement:

- ◆ Sponsor will be mentioned as a Bronze sponsor and logo will be included in

email campaigns to over 20 lakh email database with a link to your website.

- ◆ Targeted promotion as Bronze Sponsor to over 10 lakh students in 1000 schools and their families in across India through the CleanMaaGanga quest.

Signage Marketing:

- ◆ Your logo will appear on Ganga-e-Samar billboards and banners in respective ratio.

Print Marketing:

- ◆ Your logo will be printed on 50,000 flyers in respective ratio.

Additional Inclusions:

- ◆ Acknowledgments from the stage during the event.
- ◆ 2 VIP seats for dinner with performers.
- ◆ 2 VIP platinum Ganga-e-Samar passes
- ◆ 5 autographed artists CD's.



Rs. 1 Lakh

Logo Inclusion:

- ◆ Your logo will appear in a prominent position on Samarjahan Foundation Website and Samarjeet Randhava's Website. Samarjeet Foundation, Samarjeet Randhava's and other

associated companies Social Media pages which includes Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest.

Signage Marketing:


- ◆ Your logo will appear on Ganga-e-Samar billboards and banners in respective ratio.

Additional Inclusions:

- ◆ 1 VIP seats for dinner with performers.
- ◆ 1 VIP platinum Ganga-e-Samar passes
- ◆ 5 autographed artists CD's.

Concert Locations

*Lucknow
Launch Ceremony*



Haridwar



Kanpur



Varanasi



Allahabad



Patna





Samarjeet Randhwa

Sufi, Devotional & Qawwali Singer

President, Samarjahan Foundation

Samarjeet Randhwa



ganga-e-samar

a tribute to Maa Ganga



Samarjeet Randhva
Sufi, Devotional & Qawwali Singer
President, Samarjahan Foundation

Samarjeet Randhva



ganga-e-samar

a tribute to Maa Ganga



Samarjeet Randhva

Sufi, Devotional & Qawwali Singer

President, Samarjahan Foundation

बहती रही निर्गुण और सगुण भक्ति की धारा

KABIR GAYAN

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

सूफी भजन एवं कबीर के पदों में डूबे श्रोता

भोपाल, 27 फरवरी, चारों तरफ़ जाड़ बहा रही है। श्रद्धा, आस्था और कृपा का है भजन... सूफी भजनों और कबीर के पदों में डूबे श्रोता...

भोपाल, 27 फरवरी, चारों तरफ़ जाड़ बहा रही है। श्रद्धा, आस्था और कृपा का है भजन... सूफी भजनों और कबीर के पदों में डूबे श्रोता...

भोपाल, 27 फरवरी, चारों तरफ़ जाड़ बहा रही है। श्रद्धा, आस्था और कृपा का है भजन... सूफी भजनों और कबीर के पदों में डूबे श्रोता...

Serving Sufism

— July 27, 2014

An exclusive interview with Samarjeet Randhawa

Sufi music is grounded on the foundation of attaining love signifying god through music. It basically means artistic way to worship god. Everybody have its approach to attain salvation. Few go to temples mosques and churches, few dance and sings in the love of god. Worshipping basically means to identify ones ownself and in what we ourself get pleased and peace it does not matter whether you perform rituals or find your own way. Same kind of different ideology has been adopted by the music teacher from Unnao (Uttar Pradesh), Samarjeet Randhawa who has been serving music for several years including learning music from...

रौशु अल्लाह और कृष्ण, कौन भगवान है अपना...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

Kabir's dohas enthral music buffs

Neeta Gera / nra

Bhopal: Folk music lovers were treated to Kabir's dohas (couplets) on the occasion of 18th Kabir Mahotsav at the open air auditorium of Ravindra Bhawan on Thursday evening.

Major attraction of the evening was Hindustani classical vocalist Anuradha Sriram Parasharam. Her performance included 'Hail Nathuram' (Purbi), 'Nathuram and some of Kabir's other dohas. Anuradha performed in Khamr Gandharva style and was accompanied by Uday Zameer, Hussain Khan on harmonium, Ramendra Singh Solanki on tabla and Mahesh on dhak. Other performers were Vidant Bhartiya, Diva and Divya Malini. The three performed some of the famous Rajasthani folk songs like 'Bhairavi Jai' and 'Hirani Saranghi Bhadi' on compositions of Khamr Gandharva. Vasi Dixit from Swarathna band sang a Malwa folk song 'Rang Mahal and Yehu, Alah aur Khabah. The performances were in fusion style, guitar as their only musical instrument.

The third performance was by a Mumbai based music band Kabir Café. Vocalist Neeraj Arya sang Kabir's 'Halki gali hanko, moko kahan and hoshwar bhava in Malwa style'. Arya was accompanied by Shukla Ramwamy on mandolin, Viren Solanki on violin and multi-instrumentalist Raman Iyer. Iyer was accompanied by Sagar Saxena on tabla, Santosh Saxena on harmonium, Sagun Kabir Saxena on shohda, Santosh Saxena on shohda, Santosh Saxena on shohda...

कबीर के रंग, सुरों के रंग

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

निर्मल मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान

भजन संध्या में कबीर एवं लोक भजन गायकों ने बांधा समा

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

KABEERA CONNECTIONS!

The Kabir Mahotsav saw a fusion of classical, folk and semi-classical songs written by saint Kabir

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

Kabir Amritanjali released

PNWS SERVICE

Kabir Amritanjali was released on the first half of the program of Kabir dohas, Chief organization committee of the Kabir Mahotsav, Bhopal, informed. A book on the life sketch of Kabir Amritanjali was released on the first half of the program of Kabir dohas, Chief organization committee of the Kabir Mahotsav, Bhopal, informed. A book on the life sketch of Kabir Amritanjali was released on the first half of the program of Kabir dohas, Chief organization committee of the Kabir Mahotsav, Bhopal, informed.

ganga-e-samar

a tribute to Maa Ganga

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है, जो कबीर भक्ति के एक ही धारा में बहती है...

Samarjeet Randhva

Sufi, Devotional & Qawwali Singer

President, Samarjahan Foundation





Samarjahan Foundation

1/326, Ambikapuram, Shuklaganj, Unnao (UP) - 209861

+91 9210844959, info@samarjahan.org

www.samarjahan.org